

**DSVV DE VP 2**

**व्यक्तित्व परिष्कार / Personality Refinement**

सत्रांत परीक्षा, जून 2014/ **Term End Examination, June. 2014**

पेपर 2 – मानव जीवन की विकृतियां: निदान एवं समाधान (Code - 0102)

**Paper 2 – Manav jivan ki vikratya: Nidan Evam Samadhan**  
(Code - 0102)

8:00 a.m. – 11:00 a.m.

Max marks: - 80

खण्ड (क) – निम्नांकित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर 20–25 शब्दों में दीजिए।

**Answer any 10 questions of the following in 25-30 words 2 X 10**

1. जीवन मूल्य को परिभाषित करें।  
Define Life Value.
2. आलस्य एवं प्रमाद में क्या अंतर है ?  
What is the difference between Alasya (Laziness) and Pramada?
3. मानसिक शांति हेतु उपाय क्या है ?  
What is the remedy of mental peace?
4. मानसिक शक्ति का ह्रास क्यों होता है ?  
Why mental Power decreases?
5. तंबाकू के हानिकारक प्रभाव के बारे में बतायें।  
Write down about the bad effect of Tombaco
6. मानसिक असंतुलन से आप क्या समझते हैं ?  
What do you understand by Mental Imbalance?
7. असफलता का मूल कारण क्या है ?  
What is the basic Cause of Failure?
8. निराशा का वर्णन करें।  
Describe the Hopelessness?
9. तनाव को परिभाषित करें ?  
Define Stress?
10. कुण्ठा क्या है ?  
What is Frustration?
11. आत्म-हीनता क्या है ?  
What is inferiority?
- 12- अहंकार से आप क्या समझते हैं ?  
What do you mean by Ahankar (ego)?

**P.T.O**

खण्ड (ख) – निम्नांकित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 100 शब्दों में दीजिए।

Answer any 5 questions of the following in 100 words 6 X 5

1. शरीर एवं मन के सामजस्य की आवश्यकता क्यों है ?  
Why is the need of Co-ordination between body and mind?
2. समाजिक दरिद्रता के प्रमुख कारणों की व्याख्या करें।  
Explain the main cause of Social Poverty
3. जीवन निर्माण के लिए आवश्यक विचारों का वर्णन करें।  
Describe necessary thoughts for life Construction.
4. जीवन की सफलता में स्वास्थ्य का क्या महत्व है ?  
What is the importance of health in success of life?
5. धूम्रपान के लाभों को झूठा भ्रम क्या है ?  
What is the Pseudo illusion of the benefits of Smoking?
6. मानसिक असंतुलन से आध्यात्मिक पतन कैसे होता है ?  
How dose Spiritual down fall occur from mental imbalance?
7. तनाव को कैसे दूर करेंगे? वर्णन करें ?  
How will you get rid of Stress? Describe it.
8. हिंसा का अर्थ एवं कारण क्या है ?  
What is the meaning and Cause of Violence?

खण्ड (ग) – निम्नांकित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 250-300 शब्दों में दीजिए।

Answer any 2 questions of the following in 250-300 words 15 X 2

1. धूम्रपान के कुप्रभाव की व्याख्या करें।  
Explain the bad effects of Smoking.
2. आत्महीनता से मुक्ति के उपायों का वर्णन करें।  
Describe the Techniques from get rid of inferiority.
3. उन्नति के लिए आकांक्षा का क्या महत्व है ? वर्णन करें।  
Describe the importance of aspiration for Progress?
4. आत्म-सम्मान का क्रामिक विकास कैसे होता है? वर्णन करें।  
Describe how Successive development of self does – esteem Takes place?